



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 ज्येष्ठ, 1940 (श०)

संख्या- 555 राँची, मंगलवार

5 जून, 2018 (ई०)

#### नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

4 जून, 2018

संख्या-01/माडा-09/2017 न०वि०आ०-2875-- झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 2000 की धारा-128 की उपधारा-2 (य ट) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, बाजार फीस नियमावली, 2010 के अध्याय-II के नियम-20(क) में अंकित "प्राधिकार द्वारा इस मद में जमा राशि का न्यूनतम 50% राज्य सरकार खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार को त्रैमासिक रूप से विमुक्त करेगी," को निम्नवत संशोधित किया जाता है:-

"प्राधिकार द्वारा इस मद में जमा राशि का न्यूनतम 80% राज्य सरकार खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार को त्रैमासिक रूप से विमुक्त करेगी।"

2. खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, बाजार फीस नियमावली, 2010 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिंह,

सरकार के अपर मुख्य सचिव।